



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1937 (श10)

(सं0 पटना 1049) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2015

सं0 03/NGRBA-02/2012-3997 / न0वि0एवंआ0वि0
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

10 सितम्बर 2015

विषय:— राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के आलोक में गठित बिहार राज्य गंगा नदी प्राधिकरण के अंतर्गत “बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी” (BGCMS) में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 32 पदों का सृजन एवं उस पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 2,56,80,000.00 (दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के आलोक में गठित बिहार राज्य गंगा नदी प्राधिकरण के अंतर्गत “बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी” (BGCMS) में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। इन पदों पर होने वाले वेतनादि रू0 2,56,80,000.00 (दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार रू0) मात्र NMCG भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा (70:30) के अनुपात में व्यय भार वहन किया जायेगा।

2. योजना का उद्देश्य :—गंगा नदी को प्रदूषणमुक्त कर इसकी गुणवत्ता बनाये रखने हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का0आ0 521(आ0) दिनांक 20.02.2009 द्वारा माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषणमुक्त करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति में विश्व बैंक द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। योजना का नियंत्री विभाग नगर विकास एवं आवास विभाग है।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक प्राधिकरण का गठन किया जाय। इसके आलोक में बिहार राज्य में बिहार राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में किया गया है। पुनः राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत निर्देश है कि विश्व बैंक संपोषित योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए एक स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप (SPMG) का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाय। इसका आधार पर राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंध सोसाईटी (BGCMS) के गठन के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। (BGCMS) सोसाईटी का निबंधन Societies Registration Act 1860 के अंतर्गत कराया गया है। सोसाईटी का निबंधन सं0-3640 / 2011-12 दिनांक 30.03.2012 है।

सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था की Memorandum of Association (MoA) एवं इसके Rule के कंडिका-22 में Human Resources Management का प्रावधान किया गया है। कंडिका-29 में उल्लेखित BGCMS के गठन का प्रारूप NGRBA एवं World Bank के दिशानिर्देश के आलोक में स्वीकृत है। BGCMS के संरचना के अनुसार इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है।

NGRBA योजना के अधीन राज्य में चालू एवं स्वीकृत विश्व बैंक सम्पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु BGCMS कार्यालय में विषय विशेषज्ञ/प्रोफेशनल्स एवं कर्मियों की संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु NGRBA एवं World Bank के निर्देश के आलोक में प्रथम चरण में कुल 32-पदों की सृजन किया जाना प्रस्तावित है। इसमें से क्रम सं०-2, 9 एवं 24 पर अंकित पदों पर कुल तीन कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर किया जा चुका है। नियोजन तीन वर्षों के लिए किया जायेगा, आवश्यकतानुसार उसे अगले दो वर्षों तक विस्तारित किया जा सकेगा। यह योजना विश्व बैंक सम्पोषित है तथा इसमें NMCG, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 70:30 के अनुपात में व्यय भार वहन किया जाएगा।

योजना के कार्यान्वयन हेतु NGRBA/NMCG/World Bank के दिशानिर्देश के आलोक में राज्य में BGCMS का गठन किया गया है। यह सोसाईटी एक्ट के तहत निबंधित संस्था है।

3. प्रस्तावित पदों के सृजन हेतु संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	पद नाम	नवसृजित पदों की संख्या एवं प्रकृति	शैक्षणिक योग्यता	अनुमानित व्यय प्रति माह रू० में	प्रति माह कुल व्यय	कुल वार्षिक संभावित व्यय
01	Sr. Environmental Planner/water Resources Management Specialist (Unit Head)	Contract-I	Graduate or Post Graduation in Environmental Planning/Environmental Earth Science/water Resource Management with 10 yrs. Experience.	80,000.00	80,000.00	9,60,000.00
02	Environmental Specialist (Ganga)	Contract-I	Graduate or Post Graduation in Environmental Planning/Environmental Earth Science/water Resource Management with 08 yrs. Experience.	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
03	DSS/Modeling Specialist	Contract-I	Graduate or Post Graduation in Environmental Planning/Environmental Earth Science/water Resource Management with 08 yrs. Experience.	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
04	Assistant GIS Specialist	Contract-I	Graduate in Engineering (Civil/IT/Computer), with specialized course in GIS/Geo Informatic) with 6 years of Experience	40,000.00	40,000.00	4,80,000.00
05	Finance Director (Unit Head)	Contract-I	Graduate or Post Graduation in degree in commerce/Finance or an MBA in finance	1,00,000.00	1,00,000.00	12,00,000.00

क्र०सं०	पद नाम	नवसृजित पदों की संख्या एवं प्रकृति	शैक्षणिक योग्यता	अनुमानित व्यय प्रति माह रू० में	प्रति माह कुल व्यय	कुल वार्षिक संभावित व्यय
			with 15 yrs. Relevant Experience.			
06	(Sr. Financial Management Specialist/ Accountant	Contract-I	Finance/MBA in finance or Equivalent degree with 10 years relevant experience financial management.	80,000.00	80,000.00	9,60,000.00
07	Sr. Procurement Specialist	Contract-I	Graduate degree in civil Engineering or an MBA (finance) with 10 years experience.	80,000.00	80,000.00	9,60,000.00
08	Procurement Specialist	Contract-I	Graduate degree in civil Engineering or an MBA (finance) with 10 years experience	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
09	Monitoring/Evaluation (M/E) officer	Contract-I	Graduate in commerce or Science or Arts with 8 years relevant experience	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
10	Enforcement Coordinator	Contract-I	Relevant degree (Graduate in Environmental science or commerce or science or Arts) with 8 years.	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
11	Assistant Coordinator Facilities	Contract-I	Graduate in commerce or Science or Arts with 10 years relevant experience	40,000.00	40,000.00	4,80,000.00
12	IT Officer	Contract-I	BE/Btech in CS, IT with 8 years relevant experience	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
13	HR Officer	Contract-I	MBA (HR) with 8 years experience	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
14	Assistant System Analyst	Contract-I	BE/Btech in CS, IT with 6 years relevant experience	40,000.00	40,000.00	4,80,000.00
15	Communications Manager (Unit Head)	Contract-I	MBA or post Graduation in Mass Communication with 15 years relevant experience.	1,00,000.00	1,00,000.00	12,00,000.00
16	Communication participation/ outreach coordinator	Contract-I	Graduate or post graduate in Social work with 10 years relevant experience	80,000.00	80,000.00	9,60,000.00
17	RTI Officer	Contract-I	Graduate in commerce or Science or Arts with 10 years relevant experience	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
18	Grievance Redressal Officer	Contract-I	Graduate in commerce or Science or Arts with 8 years	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00

क्र०सं०	पद नाम	नवसृजित पदों की संख्या एवं प्रकृति	शैक्षणिक योग्यता	अनुमानित व्यय प्रति माह ₹० में	प्रति माह कुल व्यय	कुल वार्षिक संभावित व्यय
			relevant experience			
19	Technical Manager (Unit Head	Contract-I	Graduate or post graduation in civil Engineering/ Infrastructure planning/Environmental planning with 15 yrs. Experience.	1,00,000.00	1,00,000.00	12,00,000.00
20	Sr. Environmental Engineer (waste water segment)	Contract-I	Graduate or Post Graduation in Environmental Planning/Environmental Earth Science/water Resource Management with 10 yrs. Experience.	80,000.00	80,000.00	9,60,000.00
21	Sewerage Specialist	Contract-I	Graduate or Post Graduation in Environmental Planning/Environmental Earth Science/water Resource Management with 8 yrs. Experience.	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
22	Solid waste Management Specialist	Contract-I	Graduate or post graduation in civil Engineering/Environmental planning with 8 yrs. Experience.	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
23	River Front Management Specialist	Contract-I	Graduate or post graduation in civil Engineering/Urban Planning/Infrastructure planning/Environmental planning with 10 yrs. Experience.	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
24	Sr. Civil Engineer	Contract-I	Graduate degree in Civil Engineering with 10 yrs. experience	80,000.00	80,000.00	9,60,000.00
25	Economic/ Financial Analysis (Specialist)	Contract-I	Graduate or post graduate in Economics or Finance or MBA with 8 yrs. Experience	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
26	PPP Specialist	Contract-I	Graduate degree in civil Engineering or MBA (Finance) with 8 years experience	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
27	Social Development Specialist (ESMF)	Contract-I	Graduate or post graduate degree in Social work with 8 yrs. Experience	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00

क्र०सं०	पद नाम	नवसृजित पदों की संख्या एवं प्रकृति	शैक्षणिक योग्यता	अनुमानित व्यय प्रति माह रू० में	प्रति माह कुल व्यय	कुल वार्षिक संभावित व्यय
28	Environmental Specialist (E&MF)	Contract-I	Graduate or post graduation in Environmental planning/ Environmental Earth Sciences with 8 yrs. Experience.	70,000.00	70,000.00	8,40,000.00
29	Team Assistant	Contract-IV	Graduate with 04 years relevant experience, including as program Assistant, Good computer skills (esp. with common office programs for word processing, spread sheets, presentation, internet searches), Good Typing in Hindi & English and Communications skills.	1,20,000.00 (4x30,000)	1,20,000.00	14,40,000.00
	Total	32				2,56,80,000.00

(दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार रू वार्षिक मात्र)

4. BGCMS के सफल संचालन हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में Governing Council एवं विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में Management Committee (MC) गठित है।

5. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.09.15 के मद सं०-32 के रूप में प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त है।

6. अतः राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण (NGRBA) के आलोक में गठित बिहार राज्य गंगा नदी प्राधिकरण के अंतर्गत “बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी” (BGCMS) में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 32 पदों का सृजन एवं उस पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 2,56,80,000.00 (दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की जाती है।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1049-571+200-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>